

UNITE AGAINST COVID-19 'Virtual Awareness Campaign' MAY-JUNE 2021

Cadets of COE-GDC Sanjauli, Shimla -6 (7 HP (I) COY NCC Shimla) play a significant role in sensitizing people in dealing with COVID -19 pandemic in HP.


Stay protected! Stay safe from Coronavirus!




आ ही गए हो तो नज़ारे भी चुरा सकते नहीं,
हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत,
परमपरा है अतिथियों का सत्कार करने की,
इसलिए नज़ारे तुमसे चुरा सकते नहीं,
हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत,
हाथ हम मिला सकते नहीं,
तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है,
जैसे एक आंधी, काली घटा घेर लायी है,
फिर भी नही डरते तुमसे। तुमसे।
क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में
ही आयी है,
निपटने का तुझसे हर सम्भव प्रयास जारी है,
तुमने तो फैला लिया अपना कहर,
अब निपटने की आमी तुम्हारी बारी है,
निकाल फेंकेगे तुझको इस देश की जड़ों से
हम,
जैसे तुम कभी यहाँ आये ही न थे,
डॉक्टर की मेहनत से बैफिक हो जाएगा
यहाँ का हर एक नागरिक,
जैसे वो इससे कभी चबराए ही न थे,
डॉक्टर की मेहनत, समर्पण,
और उनके इस जज़बे को मैं दिल से सलाम
करती हूँ,
वक्त ही तो है, गुज़र जाएगा
माना मील से सीधा सीधा सुकाबला है, पर
गुज़ार जाएगा।।
Srijan Khimta
Reg no HP19SWA304924

याद करेगा हिंदुस्तान, कोरोना का ये अभिमान
रखना हे देश का ध्यान, याद करेगा हिंदुस्तान
घर में रहना हमारी शान, यही हमारा है बलिदान
याद करेगा हिंदुस्तान, बच्चों बुजुर्गों का रखना मान
पूरा रखना हमें इनका ध्यान, याद करेगा हिंदुस्तान
कितनों ने झोंकी जान, करना हमें उनका सम्मान
याद करेगा हिंदुस्तान, घर में रखो पूरा सामान
लक्ष्मण रेखा का रखो भान, याद करेगा हिंदुस्तान
बचानी हे सबकी जान, कोरोना का तोड़ो अभिमान
याद करेगा हिंदुस्तान
-cdt PriYanKa
Reg no hp20swa304919

AND THE SUNNY PLAY GROUND, NOW LOOKS BLEAK,
WHY DOES OUR WIDE WORLD SEEM SO DESOLATE NOW?
WHAT A SILLY QUESTION, EVEN A TODDLER COULD HAVE THE ANSWER.
CAUSE, THERE'S A MONSTER OUT THERE,
THAT CAN MAKE EVEN BREATHING LIKE HELL.
IT IS TINIEST THAN OUR CELLS, BUT IT IS CAUSING A HUGE PANDEMIC,
IF IT ENTERS YOUR BODY, IT MAY WEAR YOUR
CLOTHES OR SWEEPERS ARE LIKE ITS PRIVATE PET,
AND TO HAVE LUNGS, IT'S A THREAT.
WE WHO ALWAYS CHAT AND DINE IN GROUPS,
NOW PREFER TO STAY AWAY,
AND WITH A MASK ON OUR MOUTHS,
STAY AS FAR AS WE CAN FROM STRAIGHT AWAY,
NOBODY'S GOING TO SCHOOL ANYMORE,
NO CHILD PLAYING IN THE PARK,
NOBODY'S EVEN OPENING THE BOOK,
EXCEPT FOR GROCERY OR STOCK,
WE USED TO BRIDGE AND PLAY
ON OUR SWINGS AND SLIDE,
NOW, WE'RE CAGED IN OUR HOMES,
AS CORONA GAMES ARE OUTSIDE,
I USED TO PUT MY DOLLS TRAPPED ON THE SHELVES,
NOW, I REALLY DON'T KNOW WHY
TO ME, IT'S A PRIVILEGE
TO EVEN BASK IN SUNLIGHT THESE DAYS.
WE WHO ARE SOCIAL ANIMALS,
NOW DEADEN THE DOOR BELL,
SABLY, WE ARE TOLD TO SEE,
EVERY VISITOR AT AN UNWELCOME VISUS.
WHEN CAN WE REALLY BE FREE?
WHEN CAN WE STICK OUR HEADS OUT?
WHEN WILL THE DARK ANGEL
COME ON, LET US AWAIT THAT DAY,
CAUSE DONALD TRUMP
HP19SWA304924






दर्शनशास्त्र विभाग एवं एन सी सी इकाई
उत्कृष्ट केन्द्र - राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला - 6
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - जून 2021
थीम : “योग के साथ रहें, घर पर रहें”
दिनांक : 21 जून 2021

दर्शनशास्त्र विभाग और सीओई-जीडीसी संजौली की एनसीसी इकाई ने 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। छात्रों / कैडेटों द्वारा हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में एक लघु वीडियो जारी किया गया। इस दिन को घर पर परिवार के साथ सकारात्मक चेतनायुक्त परिवेश में मनाया गया। डॉ सी बी मेहता, प्रिंसिपल सीओई-जीडीसी संजौली ने बताया कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवित रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और योग शरीर के लिए ही नहीं अपितु मस्तिष्क के लिए भी लाभकारी होता है। योग जीवन को सही ढंग से जीने का एक तरीका है।

इस दिवस को योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ऑनलाइन शपथ ग्रहण (MyGov Pledge), IDY Quiz (MyGov Quiz), योग व्यायाम, IDY 2021 पर पोस्टर मेकिंग और वीडियो लॉग आदि के साथ आयोजित किया गया था।




EDUCATION NOTES

YOGA DAY CELEBRATED AT GC, SANJAULI

The Department of Philosophy and the NCC Unit of COE-GDC Sanjauli celebrated International Yoga Day. A short video was released by students/cadets about the importance of yoga in our day-to-day life. Principal CB Mehta said it was important to understand that mental health was very important for survival and yoga was not only beneficial for the body but also for the mind. The celebration was carried out with various yoga-related events such as online pledge-taking, quiz, poster-making, etc.

The Tribune Tue, 22 June 2021
<https://epaper.tribuneinc>



INTERNATIONAL DAY OF YOGA

DEPT OF PHILOSOPHY & NCC UNIT
COE - GDC SANJAULI, SHIMLA - 6

“YOGA : A PANACEA TO INCREASE QUALITY OF LIFE”
WE CELEBRATE...

INTERNATIONAL YOGA DAY
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

“BE WITH YOGA, BE AT HOME”
JUNE 2021

https://drive.google.com/file/d/1RLEJ_F6XQeuXVCm3YT06iWW0X-MDRHn6/view?usp=sharing

COE-GDC SANJAULI, SHIMLA -6

7 HP (I) COY NCC SHIMLA

KARGIL VIJAY DIWAS CELEBRATION



26 JUNE 2021

Kargil Vijay Diwas was celebrated by the National Cadet Corps (NCC) of COE-GDC Sanjauli, Shimla - 6. The cadets spoke (through virtual activities: Poetry Writing, Paintings/Posters Making & Vlog etc) about the importance of the historic day in the Indian history. Principal of COE – GDC Sanjauli, Shimla -6 Dr C B Mehta and OC Col Suneet Shagta motivated the cadets to do their best to defend the interest of the nation. The day is celebrated with full zeal and respect in the spirit of patriotism.

VLOG/S :

<https://drive.google.com/file/d/1QIEZoAWeH48NFs9KQKoHQ04vc8iTOPwu/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1KMWGPEF6fzt1pJ3ZWJgCoTjnbLctw3DD/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1HdtjbGnJeqjaJ8i-X02UTzCjjZxP9biC/view?usp=sharing>

POSTERS/PAINTINGS:



ये ऊँके हौंसले कलंद,
 मलों ना कशी हार यो,
 तिरंगा फहराने की ली कसम,
 जान देकर भी पार की।

हैं खलाम देश के ऐसे वीरों को,
 हर दिल में जगह बना गए जो,
 जिन्होंने देश की जीत सुनिश्चित की,
 और जान की बाजी हार गए।

कारगिल में बहै हुए,
 हर लक्ष का कतरा उड़ता है,
 यावत् शत्रु व वीरों को,
 जिनके बलिदान से तिरंगा फहरता है।

Kaishma Negi
 Reg - HP20SUA304921

जय हिन्द
जय भारत

KARGIL VJAY DIWAS

देश की खातिर जान गंवाई,
 बिना विचार अपनी परवाह।
 अमर हुए वो हर दिन में,
 हर भारतीय बना या गवाह।

26 जुलाई, 1999 का दिन,
 सुझरे पत्तों से गंगा या निल।
 कारगिल पर विजय भी पाई
 हर भारतीय की आसे नम हो आई।

जवाँ वीर जब शहीद हुए,
 किलों के घर उदर गंग।
 कितनी चुश्चुसा रही होगी,
 बच्चे कितने बिन बाप हुए।

जिस मा ने लकी से शा पाला,
 वो किलों की ल पाह आखिरी किलक
 उसका हाल तो समझे कौन
 जिसका लाल हो गया हमेशा के लिए गैल

वीरों ने ही ऐसी कर्बानि,
 युद्ध भूमि में हरे लोगी लीला।
 आखिरी शायो तक असे रहे,
 देश की खातिर खड़े रहे

कारगिल विजय

एक जवान जो शहीद हो गया,
 सैकड़ों नामों के कितने बीज बी गया ॥
 तिरंगे में लिपटी उसके धर पर आ गई,
 मिहुर उठी हवाकै उसी कि छा गई ॥
 तिरंगे में श्रवा बन जो उसकी नाँ को
 दिख गया,
 मरता हुआ जवान उस शत्रु में लिख गया ॥
 पूरे कसम है नाँ शैना की है ॥
 तैरा वेटा तो तैरे थिर में कहां है ॥
 कहना से कहना राबरी पर शय ना करे,
 कहना की भाई जबक अगले बार आऊंगा ॥

Vanshika Gupta
 HP20SUA304924
 #Capitol

जय-हिन्द

अपनी जान देकर तिरंगे की आज रखी थी
 हलों में बंधु क उभार भारत में की रक्षा की थी
 चलाई थी हार का स्वाद पाकिस्तान को
 उसी मुँह पे लगाम लगाई थी
 प्कारगिल युद्ध में जीत कर भारत ने
 एक नई इतिहास रचाई थी
 गौरीलसों से लड़े थे भी जवान
 लड़ की नादियां बहाई थी
 अपनी से निकड़ कर वो
 हमारे लिए जीत की गीत गाई थी
 उन जवानों की मेरा शत-शत नमन
 निजहौने छान ल्यागी थी
 शहीद होकर भी उन्होंने
 अपने देश की मान रखी थी।

Cadet - Subendex
 Reg. No. - HP20SUA304908

सरफरोशी की तमन्ना
 अब छोड़ फिल में है,
 देवान है जेद किलना
 बापु - उ - कतिल में है।

जमाने अब में किले हैं लखिने कई,
 मगर तन से खुबसुरत कोई सम नही देता,
 नेले में भी लिफ्ट कर, खेने में लिफ्ट कर मेरे दे कई,
 मगर जिसे से खुबसुरत कोई कफन नही होता।

किल में होसलो का तैज तुजान लिए किले हैं,
 अल्पान से ठंणी हम अपनी उदान लिए किले हैं,
 वक मग उरमाकग हंगर जेक और जवन को,
 हम तो हरेली पर अपनी जान होर किले हैं।

तु शहीद हुआ तो ना जाने
 जैसे तेरी में शेरों देगी र
 एक वक तो लच है
 तुम लगे वाली गेली में से कच जेगी होगी

शत शत नमन कारगिल विजय।
 Cadet - Bangal
 HP20SUA304920 जय हिन्द !!!

Kargil Vijay Diwas

Celebrating the day, birth of a nation,
 Day of achievement, hard fought salvation,
 Dawn of self esteem, end of English domination,
 Rise of new shing sun, the new aspirations.


Despite the wars, riots and the attacks,
 Nation emerged, unmer looking back,
 Seventy years of struggle, not full of knock,
 Full of talent, tenacious natures with no slack.

Salute the heroes, pride of this nation,
 Dazzling high, rejoicing the Indians,
 Love, gallant, praising unmatched brilliance,
 Dedicating the martyrs, one of the soldiers.

Name -> Akhil Kashyap
 Reg. no. -> HP20SUA304902

WEBINAR ON KARGIL VIJAY DIWAS 26 JULY 2021

Participation: Cdt Snigdha Dadhwal



A webinar as organised by Punjab- Haryana-Himachal Pradesh-Chandigarh Directorate of the National Cadet Corps on the occasion of 22nd Kargil Vijay Diwas on 26 July. NCC cadets of various groups including Amritsar group, Ludhiana group, Ambala group and Shimla group attended the online meeting. The webinar began with an introduction and all the cadets present took the pledge. Afterwards presentations were made by the cadets on the events of Kargil war as well as on the Kargil heroes- Captain Manoj Kumar, Captain Vikram Batra. The presentations were followed by Patriot Poetry Recitation Competition in which many cadets of various groups participated wholeheartedly. The last event was a Quiz. Majority of the cadets participated in this quiz. The closing remarks were given by Capt. Munish Yadav from the Ambala group. This webinar was a great way to epitomize the saga of valour of our soldiers during Kargil war.

NUKKAD NATAK – NO USE OF PLASTIC

JULY 2021

A short video (virtual nukkad natak) on No Use of Plastic was released by the cadets of COE-GDC Sanjauli. The main objective of the video was to sensitize the public/students about the harmful effects of plastic on human health and the environment. The young talented minds of the students splashed their ideas on how to stop the use of plastic.



<https://drive.google.com/file/d/1e24JafCqTMCUurC0RvGbb4R7DYnFqBPl/view?usp=sharing>

THE AUGUST MOVEMENT: BHARAT CHHODO ANDOLAN

09 AUG 2021

Remembering those who sacrificed their youth for our future.....

It aimed to imprint a sense of responsibility and obeisance for our freedom fighters.



<https://drive.google.com/file/d/1dpCNEbqH6qvG3BxWZi4WleJEfD-mIIIfV/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1dtyneVeNp55JIFyK04_Qm_G86TUV4XNL/view?usp=sharing

AZADI KA AMRUT MAHOTSAV: 75TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATION (AUG 2021)

Activities conducted/Participation:

1. Vlog
2. Sang and recorded the National Anthem
3. Handmade greeting Cards
4. Attended a Motivational Lecture
5. Fit India : Yoga at Home
6. Flag hoisting ceremony

एनसीसी कैडेट दे रहे स्वस्थ रहने के टिप्स

शिमला। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव अभियान का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। कंपनी के कर्नल सुनीत शांगटा के नेतृत्व में स्कूलों और कॉलेजों के साथ विवि में कैडेट और एनसीसी ऑफिसर रोजाना कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बताया कि कैडेट सोशल मीडिया पर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो








AZADI KA AMRIT MAHOTSAV SEP 2021

Mural and Logo designs formed by the cadets of COE-GDC Sanjauli for the NCC mega event 'Vijay Shrimkhala Aur Sanskritiyon Ka Maha Sangam' as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav program.



cdt akhil
reg no HP20SDA304902
PHHP & CHANDIGARH



SWARNIM VIJAY VARSH MASHAAL(22 OCT 2021)

The nation is celebrating 2021 as the Swarnim Vijay Varsh to commemorate the Golden Jubilee of Indian victory over Pakistan in the Indo - Pak war 1971, which was the most imphatic victory as described by historians.As part of the celebrations, Prime Minister Narendra Modi on 16 Dec 2020 lit the four ‘Swarnim Vijay Mashaals’ from the eternal flame of the National War Memorial, New Delhi marking the beginning of the 50th anniversary Swaranim Vijay Varsh. The victory mashaal were carried to the four cardinal directions of the nation including the villages of Param Vir Chakra and Maha Vir Chakra awardees of the 1971 war.

One of the victory flames arrived at Shimla on 18 OCT 2021 and received under the aegis of HQ ARTRAC Shimla . As part of the celebrations, NCC Group Shimla organised an event to hoist the Swarnim Vijay Varsh Mashal at St Edward's School Shimla on 22 OCT 2021. The flame was received by Col Suneet Shankta, Commanding Officer, 7 HP (I) Coy NCC Shimla .

Brig Manoj Khandurie (VSM) , Group Commander, NCC Shimla congatulated all on the ocassion of Swarnim Vijay Varsh and highlighted that the Victory flame is a hallmark of sacrifice of the great soldiers of this nation who scripted victory in the 1971 war and in the subsequent conflicts.



NCC DAY CELEBRATION NOV 2021



समर्पण का भाव जगती है एनसीसी : खंडूरी

शिमला। एनसीसी 7 एचपी (अंड) कंपनी शिमला ग्रुप ने सोमवार को भूखण्डापर परिसर में 73वां एनसीसी दिवस मनाया। कार्यक्रम में उच्च स्तर कमांडर मनोज खंडूरी ने कर्ता मुख्यातिथि शिरकत को। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भी जुड़ रहे।

गुप्त कमांडर ब्रिगेडियर मनोज खंडूरी ने कहा कि एनसीसी अनुशासन, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। उन्होंने कैडेटों को एनसीसी दिवस को कायम देना। कहा कि एनसीसी से जुड़कर युवा देश को सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भारतीयता का यह एनसीसी कायम में मान्य दर प्राप्त छोड़ी की संकेत बंद रहने है। इस अवसर पर हिटरो बगदाह कर्नाल सूरज श्रेष्ठ, ट्रेनिंग ऑफिसर सी लोभरेदरे कर्नल नरेंद्र विजय सिंह, सीएचएम गंगाधर पुरम, कंपनी क्वार्टर मास्टर चेतन प्रकाश, हेड क्लर्क मनोज ने एनसीसी कैडेटों को कायम देना।

एनसीसी कैडेट राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक : ब्रिगेडियर खंडूरी

शिमला। 7 एचपी (अंड) कंपनी शिमला ग्रुप द्वारा 73वां एनसीसी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुप्त कमांडर मनोज खंडूरी और शिक्षण प्रदाता उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कर्ता मुख्यातिथि शिरकत के रूप में कार्यक्रम में भी जुड़ रहे।

गुप्त कमांडर ब्रिगेडियर मनोज खंडूरी ने कहा कि एनसीसी अनुशासन, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। उन्होंने कैडेटों को एनसीसी दिवस को कायम देना। कहा कि एनसीसी से जुड़कर युवा देश को सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भारतीयता का यह एनसीसी कायम में मान्य दर प्राप्त छोड़ी की संकेत बंद रहने है। इस अवसर पर हिटरो बगदाह कर्नाल सूरज श्रेष्ठ, ट्रेनिंग ऑफिसर सी लोभरेदरे कर्नल नरेंद्र विजय सिंह, सीएचएम गंगाधर पुरम, कंपनी क्वार्टर मास्टर चेतन प्रकाश, हेड क्लर्क मनोज ने एनसीसी कैडेटों को कायम देना।

एनसीसी कैडेट को सिखाती है अनुशासन

शिमला : एनसीसी शिमला ग्रुप ने 73वां एनसीसी दिवस हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम में गुप्त कमांडर मनोज खंडूरी और उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैडेट ने मुख्य अतिथियों को एनसीसी कार्यालय शिमला के परिसर में गार्ड आफ आनर दिया। गुप्त कमांडर ब्रिगेडियर मनोज खंडूरी ने कैडेट को एनसीसी दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट अनुशासन, सेवा एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। एनसीसी से जुड़कर युवा देश की सेवा करते हैं। एनसीसी

कैडेट्स विभिन्न आपदाओं के समय भी सेवा कार्य में तत्पर रहते हैं। सैनिक की तरह अनुशासित दिनचर्या को जीते हैं। देश की आन-वान और समाज की बेहतरी के लिए युवाओं को एनसीसी के माध्यम से ट्रेनिंग, अनुशासन, एकता और कर्मठता का प्रशिक्षण देकर उनको निखारा जाता है ताकि वे अपना श्रेष्ठ दें। इस अवसर पर डिप्टी कमांडर कर्नल सुरेश बहक, ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल, सूबेदार विजय सिंह, सीएचएम गंगाधर पुरम, कंपनी क्वार्टर मास्टर चेतन प्रकाश, हेड क्लर्क मनोज आदि मौजूद रहे। (जास)

एन.सी.सी. कैडेट राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक : मनोज खंडूरी

शिमला, 29 नवंबर (अन्यदा)। सोमवार को 7 एचपी (अंड) कंपनी शिमला ग्रुप द्वारा 73वां एनसीसी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुप्त कमांडर मनोज खंडूरी और शिक्षण प्रदाता उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कर्ता मुख्यातिथि शिरकत को। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कर्ता मुख्यातिथि शिरकत के रूप में कार्यक्रम में भी जुड़ रहे।

गुप्त कमांडर ब्रिगेडियर मनोज खंडूरी ने कहा कि एनसीसी अनुशासन, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। उन्होंने कैडेटों को एनसीसी दिवस को कायम देना। कहा कि एनसीसी से जुड़कर युवा देश को सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भारतीयता का यह एनसीसी कायम में मान्य दर प्राप्त छोड़ी की संकेत बंद रहने है। इस अवसर पर हिटरो बगदाह कर्नाल सूरज श्रेष्ठ, ट्रेनिंग ऑफिसर सी लोभरेदरे कर्नल नरेंद्र विजय सिंह, सीएचएम गंगाधर पुरम, कंपनी क्वार्टर मास्टर चेतन प्रकाश, हेड क्लर्क मनोज ने एनसीसी कैडेटों को कायम देना।

शिमला : 73वां एन.सी.सी. दिवस के अवसर पर 7 एचपी. कंपनी एन.सी.सी. शिमला ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित एन.सी.सी. कैडेट व अन्य अधिकारी।

देश रहा है और देश को आन-नर और समर्थन की बेहतरी के लिए युवाओं को एनसीसी से जुड़कर युवा देश को सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कर्ता मुख्यातिथि शिरकत के रूप में कार्यक्रम में भी जुड़ रहे।

REPORT

CATC 2021

HELD FROM - 15 November to 24 November 2021

VENUE - Government Model Senior Secondary School Shoghi

CATC 2021 was ten day camp. Almost every College under 7HP came to attend this camp, to run camp smoothly a ten day schedule was made and activities were held accordingly. Morning bell rings at 5am, cadets get ready for morning exercise and then for breakfast and finally for classes. They have theory plus drill classes and topics like night navigation , weapon training , map reading and section formation was taught which helps a lot in the exams of BEE and CEE , proper 15 minute break was given during classes, cadets pay attention according to their interests . Some cadets also indulged in the activities like mess, bhatti and quarter master. The contingent was lead under the leadership of SENIOR UNDER OFFICER JAINAV KHAN, who proved herself in every certain way later SUO JAINAV KHAN and UO RAHUL Oli have their rank ceremony. Further whole camp went for shooting, buses were hired as shooting range is far from the camp, and every cadet gets the chance to shoot and gave their best. The best part is cultural activities one whole hour is assigned for the practice of cultural program which is to be held on the final day of the camp most of the cadets participated in the cultural activities and rest Played volleyball or badminton , matches for volleyball was organized and whole camp enjoyed it a lot. BRIGADIER MANOJ KHANDURI also pays a visit to the camp and has a good interaction with the cadets. The last day arrived bdaa khana with dj night was organized by our PI staff, enjoyment was at next level. Everyone took their way out for enjoyment and created unforgettable memories.



REPORT

STATE RDC 2022

The state republic day parade held at the Ridge Shimla, dated 26 January 2022 under the extreme whether condition of January. RDC is considered as the most prestigious camp of NCC and therefore the selection process is hard and purely on the basis of drill, Cadets gave their best be the part of the fighting contingent and almost practice for a week. Both the SW and the SD contingent have 27 cadets each, the SW contingent was lead by senior under Officer Mansi Verma and likewise the SD contingent was lead by SUO Chandan Sharma. Governor of the state Rajendra Vishwanath Arlekar unfurled the National flag and inaugurated the programme. Various regiments like Naga, ITBP, volunteer of NSS and many band groups also participated and made the programme successful. The final day everyone is totally groomed up and with High spirits presented themselves in front of governor and the chief guest of the event honourable sh Bikram Singh minister of transport, labor and employment, there were arrangements for refreshment. Also there was a photo shoot session although the weather is bit harsh but cadets manage to stay positive and strong. That's how the republic day ended.



COE-GDC SANJAULI, SHIMLA-6

7 HP (I) COY NCC

“DHAROHAR” AAZADI KA AMRIT MAHOTSAV

(02 APR 2022)



शिमला के कोटशेरा कॉलेज में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीआर गार्गी का स्वागत करते अध्यक्ष। इस दौरान उन्होंने कैडेटों को संबोधित किया। अमर ज्वाल

कोटशेरा कॉलेज में एनसीसी का धरोहर कार्यक्रम आयोजित

शिमला। राजीव गांधी महाविद्यालय कोटशेरा में संजौली और कोटशेरा कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने अमृत महोत्सव के तहत धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम में 7 एचपी (आई) कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर डीआर गार्गी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कोटशेरा कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. अनुपमा गर्ग और संजौली कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सीबी मेहता

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एनसीसी कैडेटों ने कमांडिंग ऑफिसर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कैडेटों ने इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. जेपी शर्मा और संजौली कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. पूनम वर्मा ने स्वागत भाषण के साथ एनसीसी की गतिविधियों की जानकारी दी। डीआर गार्गी ने कैडेटों को सेना में आफिसर बनने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो

जागरण सिटी शिमला/सोलन/सिरमौर

सेना में अधिकारी बनने के लिए एनसीसी कैडेट्स में भरा जोश

राष्ट्र सुरक्षा व मानव सेवा में दें सर्वश्रेष्ठ योगदान : कर्नल डीआर गार्गी

अमृत महोत्सव शिमला : 7 एचपी (आई) कंपनी एनसीसी शिमला के गणराज्य में राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. जेपी शर्मा और संजौली कॉलेज से एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. पूनम वर्मा की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 7 एचपी (आई) कंपनी एनसीसी की ओर से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीआर गार्गी ने बतौर विलिफ्ट मुख्यअतिथि शिरकत की। राजीव गांधी कॉलेज प्रमुख डॉ. अनुपमा गर्ग और संजौली कॉलेज के प्रमुख डॉ. सीबी मेहता कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डीआर गार्गी ने एनसीसी कैडेट्स में सेना में अधिकारी बनने के लिए जोश भरा। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बनकर राष्ट्र सुरक्षा, समाजसेवा और मानव

इसमें एनसीसी कप्तान निरमल देव लाल, सहायक उपकप्तान मदन लाल शर्मा व प्रधानाचार्य सरलाज सिंह लाल ने प्रमुख अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान 21 मेधावी छात्रों को बतौर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 21 मेधावी छात्रों सम्मानित किया गया।

राजकीय प्रदर्शन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभागार की इमारत में कैडेटों के अमृत महोत्सव का तस्वीर भी खिंचा गया।

राजकीय कार्यक्रम के एनसीसी कैडेट्स ने कर्नल डीआर गार्गी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया व एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरित किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 21 मेधावी छात्रों सम्मानित	संभार गुरु, दाइकावाट : राजकीय प्रदर्शन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए सम्मानित किया गया।	इसमें एनसीसी कप्तान निरमल देव लाल, सहायक उपकप्तान मदन लाल शर्मा व प्रधानाचार्य सरलाज सिंह लाल ने प्रमुख अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान 21 मेधावी छात्रों को बतौर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 21 मेधावी छात्रों सम्मानित किया गया।	राजकीय कार्यक्रम के एनसीसी कैडेट्स ने कर्नल डीआर गार्गी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया व एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरित किया।
---	--	---	--

क्रीडा दर्तामेंट में निवेश में मेधावी छात्रों सम्मानित



